

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-21022025-261182
SG-DL-E-21022025-261182असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 57]	दिल्ली, बुधवार, फरवरी 19, 2025/माघ 30, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 406
No. 57]	DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 19, 2025/MAGHA 30, 1946	[N. C. T. D. No. 406

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

x`g&,Q,l,y foHkkx

अधिसूचना

दिल्ली, 17 फरवरी, 2025

फा. सं. 2(134)/एफएसएल/स्था./जेएसए (एचआरडी/क्यूसी)/2024/100.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई 1959 की अधिसूचना सं.फा. 27/59 —एचआईएम (i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 7 मई 2008 की अधिसूचना सं. फा. 31/65/2007/गृह—III विभाग/215—225 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (एचआरडी/क्यूसी) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-

(i) इन नियमों को कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (एचआरडी/क्यूसी) फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशला भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :—उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि** :—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता** :— वह व्यक्ति,
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा
 - (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. **शिथिल करने की शक्ति** :— जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।
6. **बचाव** :— इन नियमों में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (एचआरडी/क्यूसी)
2.	पदों की संख्या	:	6* (2024) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रुपये 29200-92300/-)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	:	18-25* वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय।) टीप :— आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी। *यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों को भरा जाना है, तो आयु सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान या गणित या कंप्यूटर विज्ञान या रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान या फोरेंसिक विज्ञान या मनोविज्ञान या विषाक्त विज्ञान (टॉक्सिकोलॉजी) या जैव-प्रौद्योगिकी या आनुवंशिकी में मास्टर डिग्री अथवा मानव संसाधन में विशेषज्ञता के साथ व्यवसाय प्रशासन/प्रबंधन में दो वर्षों का स्नातकोत्तर डिप्लोमा या एमसीए अथवा कंप्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स

		या आईटी या ईसीई या मापयंत्रण (इंस्ट्रुमेंटेशन) में बी0टेक0 । टीप : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	: लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	: सीधी भर्ती वालों के लिए 02 वर्ष टीप : सीधी भर्ती वालों को परिवीक्षा की पूर्णता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना अपेक्षित होगा।
10.	भर्ती की पद्धति,	: 100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा टीप : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी के कारण या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या उससे अधिक लम्बी अवधि के लिये कार्य से अलग रहने के कारण हुई रिवित्तियों को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है :- (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी; अथवा (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रुपये 25500-81100/-) में नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के पश्चात् प्रदान की गई ग्रेड में 5 वर्षों की सेवा सहित या समकक्ष; तथा (ख) कॉलम (7) के अन्तर्गत सीधी भर्ती वालों के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं रखने वाले। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	: लागू नहीं टीप : प्रयोगशाला सहायक (एचआरडी/क्यूसी) के पद पर मौजूदा पदधारियों पर जेएसए (एचआरडी/क्यूसी) के पद पर ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा के पूर्ण होने के उपरान्त पदोन्नति हेतु विचार किया जाएगा। तत्पश्चात्, विचाराधीन पद हेतु भर्ती की पद्धति 100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	: समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति 1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (गृह)- अध्यक्ष 2. प्रधान सचिव/सचिव (सेवाएं)- सदस्य 3. उप-सचिव (सा.प्रशा.वि.)- सदस्य 4. संबंधित वर्टिकल के निदेशक - सदस्य टीप :- यदि विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	: लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
यश पाल, उप-सचिव (गृह)

HOME-FSL DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 17th February, 2025

No. F.2(134)/FSL/Estt./JSA(HRD/QC)/2024/100.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. F-27/59-him (i) dated the 13th July, 1959, and in supersession of this Govt's notification no. 31/65/2007/Home-III Deptt./215-225 dated 7th May 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post **Junior Scientific Assistant (HRD/QC)** in Forensic Science Laboratory, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. Short title and commencement—

- (i) These rules may be called the **Junior Scientific Assistant (HRD/QC)** Forensic Science Laboratory Recruitment Rules, 2024.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in Delhi Gazette.

2. Number of posts, classification and Pay Level in Pay Matrix – The number of the said post, its classification and pay level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.**3. Method of recruitment, age limit, qualification etc:-** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.**4. Disqualification:-** No person,-

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax:- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.**6. Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Schedule Castes, Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time in this regard.**SCHEDULE**

Name of Post	Number of posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection or Non Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other Qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Junior Scientific Assistant (HRD/QC)	6* (2024) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level -5 (Rs. 29200-92300) in the Pay Matrix	Not Applicable	Between 18-25* years (The upper age limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	Essential: Masters degree in Physics or Mathematics or Computer Science or Chemistry or Botany or Zoology or Forensic Science or Psychology or Toxicology or Biotechnology or Genetics or two years Post Graduate Diploma in Business Administration/Management with specialization in

					<p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Competent Authority.</p> <p>*In case of post being filled up by all-India Open Competition, the age limit would be between 18 year and 27 years.</p>	<p>Human Resource or MCA or B. Tech. in Computer Science or Electronics or IT or ECE or Instrumentation from a recognized University.</p> <p>Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority for reasons to be recorded in writings, in case of candidates otherwise well qualified.</p>
--	--	--	--	--	---	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Recruitment,	In case of recruitment by Promotion / Deputation / transfer grade from which promotion / deputation /transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	<p>2 years for Direct Recruits</p> <p>Note: Direct recruits would be required to successfully complete a mandatory induction Training of at least two weeks duration as prescribed by the competent authority for completion of probation.</p>	<p>100% by Direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from Officers of Central Government/State Government/UTs:-</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular</p>	<p>Not applicable</p> <p>Note: The existing incumbents to the post of Laboratory Assistant (HRD/QC) will be considered for promotion after completion of 5 years of regular service in the grade to the post of JSA (HRD/QC). Thereafter, the method of recruitment for the post under consideration will be 100% by Direct Recruitment.</p>	<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee:</p> <p>1. ACS/Principal Secretary/ Secretary (Home) Chairperson</p> <p>2. Principal Secretary / Secretary (Services) – Member</p> <p>3. Deputy Secretary (GAD) – Member</p> <p>4. Director of the concerned vertical – Member</p> <p>Note: Senior most member of the Departmental</p>	Not applicable

		<p>basis in level-4 (Rs. 25500 - 81100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>The maximum age for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>		<p>Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee.</p>	
--	--	--	--	--	--

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

YAS PAL, Dy. Secy. (Home)